

Bihar Public Service Commission

Lecturer in Govt. Polytechnics/Govt. Women's Polytechnics under Science & Technology Dept., Bihar
Written (Objective) Competitive Examination

ANSWER KEY (By Question Setter) : Engineering Science
(Ceramics/Automobile Engineering Technology) (Advt. No. 30-31/2014)

प्राश्निक द्वारा दिये गये उत्तर पूर्णतः औपबधिक (Provisional) हैं। आप सभी से नियत समय तक प्राप्त आपत्ति की गहन समीक्षा विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा की जायेगी और गहन समीक्षोपरान्त पुनः उक्त समिति द्वारा सभी प्रश्नों का अन्तिम आदर्श उत्तर तैयार किया जायेगा। विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किये गये उस अन्तिम आदर्श उत्तर के आधार पर ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) का मूल्यांकन किया जायेगा।

Section – B (Fluid Mechanics)

Question No. of Series-A	Question No. of Series-B	Question No. of Series-C	Question No. of Series-D	Answer Given by Setter
1	8	14	20	A
2	9	15	21	B
3	10	16	22	D
4	11	17	23	B
5	12	18	24	B
6	13	19	25	C
7	14	20	1	A
8	15	21	2	C
9	16	22	3	A
10	17	23	4	D
11	18	24	5	C
12	19	25	6	B
13	20	1	7	C
14	21	2	8	B
15	22	3	9	A
16	23	4	10	A
17	24	5	11	C
18	25	6	12	B
19	1	7	13	A
20	2	8	14	A
21	3	9	15	A
22	4	10	16	C
23	5	11	17	B
24	6	12	18	B
25	7	13	19	D

Section – C (Materials Mechanics)

Question No. of Series-A	Question No. of Series-B	Question No. of Series-C	Question No. of Series-D	Answer Given by Setter
26	32	38	45	B
27	33	39	46	A
28	34	40	47	B
29	35	41	48	C
30	36	42	49	B
31	37	43	50	A
32	38	44	26	C
33	39	45	27	D
34	40	46	28	D
35	41	47	29	A
36	42	48	30	A
37	43	49	31	B
38	44	50	32	C
39	45	26	33	D
40	46	27	34	D
41	47	28	35	D
42	48	29	36	D
43	49	30	37	C
44	50	31	38	A
45	26	32	39	A
46	27	33	40	D
47	28	34	41	C
48	29	35	42	C
49	30	36	43	C
50	31	37	44	A

Section – D (Solid Mechanics)

Question No. of Series-A	Question No. of Series-B	Question No. of Series-C	Question No. of Series-D	Answer Given by Setter
51	58	63	71	B
52	59	64	72	B
53	60	65	73	A
54	61	66	74	D
55	62	67	75	B
56	63	68	51	B
57	64	69	52	A
58	65	70	53	C
59	66	71	54	A
60	67	72	55	A
61	68	73	56	B
62	69	74	57	A
63	70	75	58	A
64	71	51	59	D
65	72	52	60	D
66	73	53	61	B
67	74	54	62	B
68	75	55	63	B
69	51	56	64	D
70	52	57	65	D
71	53	58	66	B
72	54	59	67	D
73	55	60	68	C
74	56	61	69	C
75	57	62	70	D

Section – E (Thermodynamics)

Question No. of Series-A	Question No. of Series-B	Question No. of Series-C	Question No. of Series-D	Answer Given by Setter
76	83	89	95	D
77	84	90	96	C
78	85	91	97	A
79	86	92	98	B
80	87	93	99	D
81	88	94	100	A
82	89	95	76	C
83	90	96	77	B
84	91	97	78	B
85	92	98	79	D
86	93	99	80	A
87	94	100	81	C
88	95	76	82	D
89	96	77	83	D
90	97	78	84	B
91	98	79	85	C
92	99	80	86	D
93	100	81	87	B
94	76	82	88	B
95	77	83	89	C
96	78	84	90	A
97	79	85	91	D
98	80	86	92	A
99	81	87	93	D
100	82	88	94	C

Section – F (Polymer Science and Engineering)

Question No. of Series-A	Question No. of Series-B	Question No. of Series-C	Question No. of Series-D	Answer Given by Setter
101	107	113	119	A
102	108	114	120	B
103	109	115	121	C
104	110	116	122	D
105	111	117	123	C
106	112	118	124	B
107	113	119	125	A
108	114	120	101	D
109	115	121	102	B
110	116	122	103	A
111	117	123	104	B
112	118	124	105	B
113	119	125	106	B
114	120	101	107	D
115	121	102	108	D
116	122	103	109	B
117	123	104	110	B
118	124	105	111	C
119	125	106	112	A
120	101	107	113	C
121	102	108	114	C
122	103	109	115	B
123	104	110	116	B
124	105	111	117	A
125	106	112	118	A

Section – G (Food Technology)

Question No. of Series-A	Question No. of Series-B	Question No. of Series-C	Question No. of Series-D	Answer Given by Setter
126	133	139	145	
127	134	140	146	
128	135	141	147	
129	136	142	148	
130	137	143	149	
131	138	144	150	
132	139	145	126	
133	140	146	127	
134	141	147	128	
135	142	148	129	
136	143	149	130	
137	144	150	131	
138	145	126	132	
139	146	127	133	
140	147	128	134	
141	148	129	135	
142	149	130	136	
143	150	131	137	
144	126	132	138	
145	127	133	139	
146	128	134	140	
147	129	135	141	
148	130	136	142	
149	131	137	143	
150	132	138	144	